


छोटा डंक:  
बड़ा खतरा

आपकी और आपके परिवार की  
सुरक्षा के सरल उपाय




मच्छरदानी के भीतर ही सोये



खिड़कियों एवं दरवाजों पर जाली लगायें  
मच्छर निरोधक का प्रयोग करें




हल्के रंग के कपड़े पहने एवं हाथ पैरों को पूरा ढकें



हर सप्ताह कूलर, टकी और बैरल के पानी को खाली करें



आस-पास पानी को न रुकने दें



तेज बुखार, उल्टी और बदन दर्द होने पर चिकित्सक से सम्पर्क करें